

## इस अंक में

सांप्रदायिक घटनाएं	2-5	सांप्रदायिक रणनीति	6-10
<b>सांप्रदायिक हिंसा और तनाव</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>आगरा में धर्मस्थल के निर्माण पर विवाद</li> <li>मुंबई में आपत्तिजनक सोशल पोस्ट से तनाव</li> <li>शामली में तनाव</li> <li>बिजनौर में सामान्य विवाद में हिंसा</li> <li>आगरा में युवती के अपहरण से तनाव</li> <li>पश्चिम बंगाल में तनाव</li> <li>उड़ीसा में सांप्रदायिक हिंसा</li> <li>ऊधमसिंह नगर में सांप्रदायिक तनाव</li> <li>झारखंड में मांस फेंकने से विवाद</li> <li>बिजनौर में सांप्रदायिक हिंसा</li> <li>बनारस में लाट भैरव यात्रा के दौरान तनाव</li> <li>महाराष्ट्र में सांप्रदायिक तनाव</li> <li>काजीरंगा में तनाव</li> <li>उड़ीसा में सांप्रदायिक तनाव</li> <li>झारखंड में सांप्रदायिक विवाद</li> <li>कोयम्बटूर में सांप्रदायिक हिंसा</li> <li>कानपुर में सांप्रदायिक तनाव की कोशिश</li> <li>मथुरा में सांप्रदायिक तनाव</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>कई राज्यों में गौरक्षक संगठनों का हमला</li> <li>बजरंग दल के दबाव में पाकिस्तानी गायक का कार्यक्रम रद्द</li> <li>फिल्म रानी पद्मावती का विरोध</li> <li>करोल बाग में हिंदुत्ववादी संगठनों का प्रदर्शन</li> <li>गरबा में मुस्लिमों का विरोध</li> <li>मुंबई हाउसिंग सोसायटी का सांप्रदायिक प्रस्ताव</li> <li>हरियाणा में बिरयानी को लेकर विवाद</li> <li>उत्तरप्रदेश के कालेज में विहिप का अभियान</li> <li>गौ सेवा आयोग ने की गाय पर अलग विश्वविद्यालय की मांग</li> <li>दाभोलकर ट्रस्ट पर वित्तीय अनियमितता का आरोप</li> <li>जल प्रदूषण से निजात के उपाय का हिंदू संगठनों ने किया विरोध</li> <li>फिल्म में ईसाइयों की हत्या के दृश्य पर हिंदूवादी संगठनों का समर्थन</li> <li>गोडसे की फांसी की जगह पर पूजा की मांग</li> <li>लॉ कमीशन में नियुक्ति पर विवाद</li> <li>हिंदू नारी संसद का आयोजन</li> <li>लखनऊ में सोशल पोस्ट से माहौल बिगाड़ने की कोशिश</li> </ul>	
<b>अतिवादी कथन /सांप्रदायिक कथन</b>	10	<b>सांप्रदायिक घटनाओं के आंकड़े</b>	12
<ul style="list-style-type: none"> <li>प्रशासनिक कार्यवाई को कहा हिंदू विरोधी</li> <li>आरएसएस की पत्रिका में ओणम पर विवाद</li> <li>सलाफी प्रचारक के खिलाफ हेट स्पीच का मामला</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>उत्तरप्रदेश में आगरा में हुई सर्वाधिक घटनाएं</li> </ul>	
<b>न्यायिक और प्रशासनिक प्रक्रिया</b>	11-12		
<ul style="list-style-type: none"> <li>एमआईएम पार्षद को अग्रिम जमानत</li> <li>ऊना मामला: गुजरात हाइकोर्ट ने प्रगति रिपोर्ट मांगा</li> <li>नरोदा पाटिया केस: सुप्रीम कोर्ट का छ: माह में सुनवाई का आदेश</li> <li>भीलवाड़ा में इंटरनेट पर रोक लगी</li> <li>होसदुर्ग अदालत: विहिप नेता प्रवीण तोगड़िया की गिरफ्तारी का आदेश</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>बिरयानी जांच के खिलाफ याचिका</li> <li>मुजफ्फरनगर दंगों में कमजोर जांच</li> <li>गुजरात हाइकोर्ट ने मृतक गवाह के बयान को निरस्त करने का आदेश दिया</li> <li>हरी मस्जिद फाइरिंग केस बंद</li> </ul>	

## सांप्रदायिक घटनाएं

## सांप्रदायिक हिंसा एवं तनाव

घटनाएं	सम्मिलित संगठन/समूह	दिनांक और घटना स्थल
<p><b>आगरा में धर्मस्थल के निर्माण पर विवाद</b></p> <p>आगरा के नाई की मंडी इलाके में धर्मस्थल के निर्माण को लेकर दो समुदायों के बीच तनाव हुआ। प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद विवाद को सुलझा लिया गया। इस घटना में किसी तरह की हिंसा की खबर नहीं है।</p> <p><a href="http://www.amarujala.com/uttar-pradesh/agra/crime/communal-tension-in-nai-ki-mandi">http://www.amarujala.com/uttar-pradesh/agra/crime/communal-tension-in-nai-ki-mandi</a> Date Accessed:3/9/2016</p>	स्थानीय समुदाय	2/9/2016 आगरा, उत्तरप्रदेश
<p><b>मुंबई में आपत्तिजनक सोशल पोस्ट से तनाव</b></p> <p>मुंबई के मलाड इलाके में फेसबुक पर भेजे गए आपत्तिजनक संदेश में पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया। संदेश के जरिए गणेशोत्सव के दौरान दो समुदायों में झड़प की अफवाह फैलायी जा रही थी।</p> <p><a href="http://www.thehindu.com/news/cities/mumbai/fir-registered-in-connection-with-false-inflammatory-text-message-on-whatsapp/article9075280.ece">http://www.thehindu.com/news/cities/mumbai/fir-registered-in-connection-with-false-inflammatory-text-message-on-whatsapp/article9075280.ece</a> Date Accessed:6/9/2016</p>	(खबर में उल्लेख नहीं)	5/9/2016 मुंबई, महाराष्ट्र
<p><b>शामली में तनाव</b></p> <p>शामली में दो समुदायों के युवकों में हुए सामान्य विवाद में सांप्रदायिक तनाव हुआ। दोनों पक्षों में मार-पीट और फायरिंग हुई, जिससे एक युवक घायल हो गया।</p> <p><a href="http://www.patrika.com/news/muzaffernagar/communal-tension-in-shamli-over-water-1395377/">http://www.patrika.com/news/muzaffernagar/communal-tension-in-shamli-over-water-1395377/</a> Date Accessed:9/9/2016</p>	स्थानीय समुदाय	(तारीख का जिक्र नहीं है) शामली उत्तरप्रदेश
<p><b>बिजनौर में सामान्य विवाद में हिंसा</b></p> <p>बिजनौर के धामपुर में दो समुदाय के युवकों के बीच हुए विवाद को भाजपा नेताओं ने राजनीतिक रंग देने की कोशिश की। आपसी रंजिश को लेकर हुए सामान्य विवाद में भीड़ ने पत्थरबाजी की। इस मामले में 150 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया।</p> <p><a href="http://timesofindia.indiatimes.com/city/meerut/After-communal-tension-exodus-threat-puts-Dhampur-on-edge/articleshow/54257072.cms">http://timesofindia.indiatimes.com/city/meerut/After-communal-tension-exodus-threat-puts-Dhampur-on-edge/articleshow/54257072.cms</a> <a href="http://navbharattimes.indiatimes.com/state/uttar-pradesh/others/after-communal-tension-exodus-threat-puts-dhampur-on-edge/articleshow/54262606.cms">http://navbharattimes.indiatimes.com/state/uttar-pradesh/others/after-communal-tension-exodus-threat-puts-dhampur-on-edge/articleshow/54262606.cms</a> Date Accessed:9/9/2016</p>	स्थानीय समुदाय, भाजपा	7/9/2016 बिजनौर, उत्तरप्रदेश

<p><b>आगरा में युवती के अपहरण से तनाव</b></p> <p>आगरा के लोहामंडी इलाके में अल्पसंख्यक समुदाय की एक युवती को अगवा करने की घटना से तनाव हुआ। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने पुलिस थाने पर प्रदर्शन किया और आरोपियों के गिरफ्तारी की मांग की।</p> <p><a href="http://www.jagran.com/uttar-pradesh/agra-city-14680191.html">http://www.jagran.com/uttar-pradesh/agra-city-14680191.html</a> Date Accessed:11/9/2016</p>	<p>स्थानीय समुदाय</p>	<p>10/9/2016 आगरा, उत्तरप्रदेश</p>
<p><b>पश्चिम बंगाल में तनाव</b></p> <p>दक्षिण परगना के धोलाहाट में 28 साल के पशु व्यापारी की हत्या के बाद तनाव हुआ। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया है कि हत्या में हिंदूवादी संगठन के लोग शामिल हैं। आरोप है कि मामले को लेकर उग्र हुई भीड़ ने पुलिस थाने पर हमला किया, जिसमें 49 लोगों की गिरफ्तारी हुई।</p> <p><a href="http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/dholahat-police-mob-attack-cattle-trader-death-3027751/">http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/dholahat-police-mob-attack-cattle-trader-death-3027751/</a> Date Accessed:12/9/2016</p>	<p>हिंदूवादी संगठन</p>	<p>11/9/2016 धोलाहाट, पश्चिम बंगाल</p>
<p><b>उड़ीसा में सांप्रदायिक हिंसा</b></p> <p>उड़ीसा के राउरकेला, बालासोर, सोरो, पट्टामुंडई में गणेश विसर्जन के दौरान हिंसा हुई। गणेश विसर्जन के दौरान अराजक तत्वों द्वारा ईट फेंकने के बाद सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा हुई। सांप्रदायिक हिंसा को देखते हुए कई इलाकों में धारा 144 लगाया गया।</p> <p><a href="http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/odisha-communal-tension-in-three-towns-over-immersion-processions-3028502">http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/odisha-communal-tension-in-three-towns-over-immersion-processions-3028502</a> Date Accessed:13/9/2016</p>	<p>अराजक तत्व</p>	<p>12/9/2016 राउरकेला, बालासोर, सोरो, पट्टामुंडई उड़ीसा</p>
<p><b>उधमसिंह नगर में सांप्रदायिक तनाव</b></p> <p>उधमसिंह नगर में ईद-उल अजहा के दौरान माहौल खराब करने की कोशिश हुई। बाइक सवार युवकों पर मांस ले जाने का आरोप लगाया। इसकी खबर फैलने पर काफी भीड़ जमा हो गई। इस मामले में स्थानीय भाजपा नेता पर आरोप लगाया गया है।</p> <p><a href="http://www.jagran.com/uttarakhand/udhamsingh-nagar-14691542.html">http://www.jagran.com/uttarakhand/udhamsingh-nagar-14691542.html</a> Date Accessed:13/9/2016</p>	<p>भाजपा</p>	<p>13/9/2016 उधम सिंह नगर उत्तराखंड</p>
<p><b>झारखंड में मांस फेंकने से विवाद</b></p> <p>बोकारो में कथित तौर पर प्रतिबंधित पशु का मांस फेंकने से विवाद हुआ। हिंसक भीड़ ने बोकारो-रामगढ़ हाइवे को जाम कर दिया। कई वाहनों में तोड़फोड़ और आगजनी हुई।</p> <p><a href="http://www.livehindustan.com/news/jharkhand/article1-chaos-in-chas-several-injured--560440.html">http://www.livehindustan.com/news/jharkhand/article1-chaos-in-chas-several-injured--560440.html</a> Date Accessed: 14/9/2016</p>	<p>अराजक तत्व</p>	<p>13/9/2016 बोकारो झारखंड</p>

<p><b>बिजनौर में सांप्रदायिक हिंसा</b></p> <p>बिजनौर में छात्रा के साथ छेड़छाड़ के बाद सांप्रदायिक हिंसा हुई। शुक्रवार की रात भड़की हिंसा में फायरिंग से चार लोगों की मौत हो गयी और लगभग 12 लोग घायल हो गए। भीड़ ने दिल्ली-पौड़ी नेशनल हाइवे पर शव रखकर प्रदर्शन किया।</p> <p><a href="http://indiatoday.intoday.in/story/communal-violence-eve-teasing-four-dead-bijnor-uttar-pradesh/1/765984.html">http://indiatoday.intoday.in/story/communal-violence-eve-teasing-four-dead-bijnor-uttar-pradesh/1/765984.html</a> Date Accessed:16/9/2016</p>	<p>स्थानीय समुदाय</p>	<p>16/9/2016 बिजनौर उत्तरप्रदेश</p>
<p><b>बनारस में लाट भैरव यात्रा के दौरान तनाव</b></p> <p>काशी में लाट भैरव की यात्रा के दौरान सांप्रदायिक तनाव हुआ। बताया जाता है कि यात्रा के दौरान एक पुलिस कांस्टेबल जूता पहल नमाज की जगह पर चला गया। तनाव के दौरान कुछ अराजक तत्वों ने धार्मिक स्थल के झंटे को हटा दिया।</p> <p><a href="http://timesofindia.indiatimes.com/city/varanasi/Communal-tension-grips-Kashi-before-Laat-Bhairav-Barat/articleshow/54377905.cms">http://timesofindia.indiatimes.com/city/varanasi/Communal-tension-grips-Kashi-before-Laat-Bhairav-Barat/articleshow/54377905.cms</a> Date Accessed:17/9/2016</p>	<p>स्थानीय समुदाय</p>	<p>16/9/2016 बनारस उत्तरप्रदेश</p>
<p><b>महाराष्ट्र में सांप्रदायिक तनाव</b></p> <p>यवतमाल जिले के उमरखेड़ में मरकज मस्जिद के पास गणेशोत्सव के दौरान सांप्रदायिक तनाव हुआ। हिंसा के दौरान 35 लोग घायल हुए। बताया जाता है कि नमाज के दौरान निकल रही गणेश यात्रा में बज रहे डीजे के कारण विवाद हुआ।</p> <p><a href="http://twocircles.net/2016sep17/1474093205.html#.V-5ho4h97IU">http://twocircles.net/2016sep17/1474093205.html#.V-5ho4h97IU</a> Date Accessed:17/9/2016</p>	<p>स्थानीय समुदाय</p>	<p>15/9/2016 यवतमाल महाराष्ट्र</p>
<p><b>काजीरंगा में तनाव</b></p> <p>काजीरंगा पार्क के सीमांत इलाकों में सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के घर हटाने को लेकर तनाव की स्थिति पैदा हुई है। असम सरकार ने बयान दिया है कि राजनीतिक दल इसे सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं और सरकार गुवाहाटी हाईकोर्ट के आदेश का पालन कर रही है।</p> <p><a href="http://timesofindia.indiatimes.com/city/guwahati/No-communal-overtone-to-Kaziranga-clash-Government/articleshow/54418728.cms">http://timesofindia.indiatimes.com/city/guwahati/No-communal-overtone-to-Kaziranga-clash-Government/articleshow/54418728.cms</a> Date Accessed:20/9/2016</p>	<p>राजनीतिक दल</p>	<p>काजीरंगा पार्क असम</p>
<p><b>उड़ीसा में सांप्रदायिक तनाव</b></p> <p>केन्द्रपाड़ा जिले के कस्बे पट्टामुंडई में गणेश पूजा और देवी खुदुरकुनी के विसर्जन के दौरान मस्जिद के सामने लाउडस्पीकर बजाने से हुए तनाव के बाद धारा 144 लगा दिया गया था। बाद में प्रशासन ने धारा हटाकर सांप्रदायिक सौहार्द करने की अपील जारी की।</p> <p><a href="http://www.newindianexpress.com/states/odisha/Prohibitory-orders-lifted-in-Pattamundai/2016/09/23/article3627498.ece">http://www.newindianexpress.com/states/odisha/Prohibitory-orders-lifted-in-Pattamundai/2016/09/23/article3627498.ece</a> Date Accessed: 23/9/2016</p>	<p>स्थानीय समुदाय</p>	<p>12/9/2016 केन्द्रपाड़ा उड़ीसा</p>

<p><b>झारखंड में सांप्रदायिक विवाद</b></p> <p>झारखंड के गिरिडीह में मूर्तिविसर्जन के दौरान सांप्रदायिक विवाद हुआ। इस विवाद में 45 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया। विहिप ने राजनीतिक बयान देते हुए कहा है कि गिरिडीह में वहाबी विचारधारा के प्रसार के कारण ऐसा हुआ।</p> <p><a href="http://www.bhaskar.com/news/JHA-MAT-latest-giridih-news-024002-1034258-NOR.html">http://www.bhaskar.com/news/JHA-MAT-latest-giridih-news-024002-1034258-NOR.html</a>  <a href="http://www.bhaskar.com/news/JHA-MAT-latest-giridih-news-024002-1026797-NOR.html">http://www.bhaskar.com/news/JHA-MAT-latest-giridih-news-024002-1026797-NOR.html</a>          Date Accessed: 24/9/2016</p>	<p>स्थानीय समुदाय</p>	<p>(तारीख स्पष्ट नहीं है।) गिरिडीह झारखंड</p>
<p><b>कोयम्बटूर में सांप्रदायिक हिंसा</b></p> <p>कोयम्बटूर में हिंदू मुन्नानी शशिकुमार की हत्या के बाद हिंसा और तनाव का माहौल रहा। गुरुवार की रात मोटरबाइक पर सवार लोगों ने धारदार हथियार से हमला किया। हिंदूवादी कार्यकर्ता की शवयात्रा के दौरान उग्र हुई भीड़ ने कई घरों और दुकानों को क्षतिग्रस्त किया। इस मामले में 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।</p> <p><a href="http://www.thehindu.com/news/national/tamil-nadu/oneday-bandh-called-by-hindu-munnani-in-coimbatore/article9139869.ece">http://www.thehindu.com/news/national/tamil-nadu/oneday-bandh-called-by-hindu-munnani-in-coimbatore/article9139869.ece</a>  <a href="http://www.thehindu.com/news/cities/Coimbatore/50-arrested-in-connection-with-coimbatore-violence/article9142296.ece">http://www.thehindu.com/news/cities/Coimbatore/50-arrested-in-connection-with-coimbatore-violence/article9142296.ece</a>          Date Accessed:24/9/2016</p>	<p>अज्ञात हमलावर, हिंदू मुन्नानी</p>	<p>22/9/2016 कोयंबटूर तमिलनाडु</p>
<p><b>कानपुर में सांप्रदायिक तनाव की कोशिश</b></p> <p>कानपुर के कैंट इलाके के धर्मस्थल में किए गए तोड़-फोड़ के बाद सांप्रदायिक स्थिति बिगड़ी। भीड़ ने कैंट इलाके में नारेबाजी की। इस मामले में धार्मिक गुरु और प्रशासनिक हस्तक्षेप के कारण विवाद टल गया। इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।</p> <p><a href="http://www.amarujala.com/photo-gallery/uttar-pradesh/kanpur/shuklaganj-commotion-near-mazar-in-golaghat">http://www.amarujala.com/photo-gallery/uttar-pradesh/kanpur/shuklaganj-commotion-near-mazar-in-golaghat</a>          Date Accessed:26/9/2016</p>	<p>अराजक तत्व</p>	<p>(तारीख स्पष्ट नहीं है) कानपुर उत्तरप्रदेश</p>
<p><b>मथुरा में सांप्रदायिक तनाव</b></p> <p>मथुरा के मगोरा गांव में 14 साल की लड़की के साथ हुए कथित बलात्कार के बाद सांप्रदायिक तनाव हुआ। इस घटना के बाद माहौल तनावपूर्ण रहा और महापंचायत आयोजित कर एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों के सामाजिक बहिष्कार का फैसला किया। इस मामले में पोस्को के तहत मामला दर्ज किया गया है। एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है।</p> <p><a href="http://timesofindia.indiatimes.com/city/agra/Minors-rape-leads-to-communal-tension-in-Mathura/articleshow/54560331.cms">http://timesofindia.indiatimes.com/city/agra/Minors-rape-leads-to-communal-tension-in-Mathura/articleshow/54560331.cms</a>  <a href="http://navbharattimes.indiatimes.com/state/uttar-pradesh/mathura/agra/after-gangrape-entire-community-is-boycotted/articleshow/54596580.cms">http://navbharattimes.indiatimes.com/state/uttar-pradesh/mathura/agra/after-gangrape-entire-community-is-boycotted/articleshow/54596580.cms</a>          Date Accessed:28/9/2016</p>	<p>स्थानीय समुदाय</p>	<p>28/9/2016 मथुरा उत्तरप्रदेश</p>

## सांप्रदायिक रणनीति

## सांप्रदायिक संगठन

## रणनीति

सम्मिलित  
संगठन

## कई राज्यों में गौरक्षक संगठनों का हमला

## मध्यप्रदेश

भोपाल से 40 किमी दूर झोरा गांव में गौरक्षक दलों ने एक ट्रक में आग लगा दिया। ट्रक में पोल्ट्री फार्म का चारा था। इस मामले में 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई है।

<http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/cow-vigilantes-mistake-chicken-feed-for-beef-torch-truck-3012017/>

Date Accessed: 3/9/2016

## कर्नाटक

कर्नाटक के मडेकरी गांव में 36 साल के एक व्यक्ति को गौरक्षकों ने पशु चोरी का आरोप लगाकर पीटा। पीड़ित ने बयान दिया है कि मुझे गाय का गोबर खाने के लिए कहा गया।

<http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/cow-vigilantes-assault-farmer/article9101778.ece>

Date Accessed: 6/9/2016

## हरियाणा

25 अगस्त को मेवात में एक युगल की हत्या और दो लड़कियों के सामूहिक बलात्कार के मामले में गौरक्षक दलों पर आरोप लगा। पीड़ित लड़कियों ने कहा था कि हमलावरों ने हमसे गाय का मांस खाने के बारे में पूछा था। पुलिस ने कहा है कि फिलहाल किसी गौरक्षक संगठन की भूमिका का प्रमाण नहीं मिला है। अब इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है।

<https://www.scoopwhoop.com/Mewat-Gangrape-Victim-Alleges-Gau-Rakshaks-Involved-Police-Say-No-Evidence/#.gipz3zma0>

Date Accessed: 10/9/2016

## गुजरात

13 सितंबर को अहमदाबाद में गौरक्षकों ने एक युवक पर हमला किया। गंभीर रूप से घायल मोहम्मद अय्युब की ईलाज के दौरान मौत हो गयी। इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

<http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/muslim-man-mohammad-ayyub-mev-thrashed-by-suspected-cow-vigilantes-dies-gujarat-3035150/>

<http://www.ahmedabadmirror.com/ahmedabad/crime/Gau-rakshak-attack-SOG-arrests-3/articleshow/54451445.cms>

Date Accessed: 22/9/2016

## कर्नाटक

बंगलौर में ईद के त्यौहार के दौरान गौरक्षक दलों ने एक परिवार पर हमला किया। गौरक्षक संगठन का आरोप था कि परिवार ने ईद के मौके पर गाय की कुर्बानी दी है।

गौरक्षक संगठन

<p><a href="http://www.news18.com/news/india/gau-rakshak-targets-muslim-family-for-slaughtering-cow-in-bluru-1292523.html">http://www.news18.com/news/india/gau-rakshak-targets-muslim-family-for-slaughtering-cow-in-bluru-1292523.html</a> Date Accessed: 15/9/2016</p> <p><b>राजस्थान</b> राजस्थान के अलवर जिले के गांव में तनाव हुआ। गांव के लोगों का आरोप है कि भाजपा विधायक जानदेव आहूजा के नेतृत्व में हिंदूवादी संगठनों ने गाँव में लूटपाट किया और गौ हत्या का झूठा आरोप लगाया। हिंदूवादी संगठनों का आरोप है कि रेवाड़ा गांव में गौकशी हो रही थी। <a href="http://aajtak.intoday.in/crime/story/rajasthan-police-arrested-twelve-in-case-of-cow-slaughtering-and-victim-makes-allegation-on-bjp-vhp-of-loot-and-beating-1-888109.html">http://aajtak.intoday.in/crime/story/rajasthan-police-arrested-twelve-in-case-of-cow-slaughtering-and-victim-makes-allegation-on-bjp-vhp-of-loot-and-beating-1-888109.html</a> <a href="http://www.thehindu.com/news/national/other-states/many-held-near-alwar-on-cow-slaughter-charge-villagers-claim-cow-vigilante-violence/article9115126.ece">http://www.thehindu.com/news/national/other-states/many-held-near-alwar-on-cow-slaughter-charge-villagers-claim-cow-vigilante-violence/article9115126.ece</a> Date Accessed: 17/9/2016</p> <p><b>दिल्ली</b> ईद के अगले दिन नांगलोई में एक टेम्पो में मांस के बचे हुए टुकड़े और हड्डियां ले जा रहे व्यक्तियों को पीटा गया। इस मामले में चार लड़कों को गिरफ्तार किया गया है। <a href="http://scroll.in/article/816737/a-gau-rakshak-style-assault-brings-the-violence-of-intolerance-to-the-capital">http://scroll.in/article/816737/a-gau-rakshak-style-assault-brings-the-violence-of-intolerance-to-the-capital</a> Date Accessed: 18/9/2016</p>	<p>विश्व हिंदू परिषद, भाजपा</p> <p>अज्ञात</p>
<p><b>बजरंग दल के दबाव में पाकिस्तानी गायक का कार्यक्रम रद्द</b> पाकिस्तानी गायक शफकत अमानत अली के कार्यक्रम को बजरंग दल के दबाव में रद्द कर दिया गया। कार्यक्रम का आयोजन बेंगलुरु के एक मॉल में किया जाना था। यह कार्यक्रम एफएम रेडियो के एक चैनल की तरफ से आयोजित किया गया था। <a href="http://khabar.ndtv.com/news/india/pakistani-singer-shafqat-amanat-ali-show-will-not-be-held-in-bengaluru-1467563">http://khabar.ndtv.com/news/india/pakistani-singer-shafqat-amanat-ali-show-will-not-be-held-in-bengaluru-1467563</a> Date Accessed: 28/9/2016</p>	<p>बजरंग दल</p>
<p><b>फिल्म रानी पद्मावती का विरोध</b> हिंदूवादी संगठन संजय लीला भंसाली की आने वाली फिल्म रानी पद्मावती का विरोध कर रहे हैं। पाटीदार नवनिर्माण सेना, प्रताप युवा शक्ति, विहिप सहित कई संगठनों ने फिल्म का विरोध करना शुरू कर दिया है। जबकि फिल्म अभी निर्माणाधीन है। <a href="http://www.bhaskar.com/news/c-10-2601205-jp0957-sanjay-leela-bhansali-padmavati-film-threatened-with-protests-by-hardik-patel-in.html">http://www.bhaskar.com/news/c-10-2601205-jp0957-sanjay-leela-bhansali-padmavati-film-threatened-with-protests-by-hardik-patel-in.html</a> Date Accessed: 22/9/2016</p>	<p>पाटीदार नवनिर्माण सेना, प्रताप युवा शक्ति, विहिप और अन्य संगठन</p>
<p><b>करोल बाग में हिंदुत्ववादी संगठनों का प्रदर्शन</b> करोल बाग इलाके में कथित तौर पर एक पार्क में गाय का मांस पाए जाने पर तनाव हुआ। विहिप, आरएसएस, बजरंग दल, हिंदू मंच सहित कई संगठनों ने धरना आयोजित किया। किशनगंज रेलवे कॉलनी के इस पार्क में आरएसएस की शाखाएं आयोजित की जाती हैं। <a href="http://www.financialexpress.com/india-news/hindu-outfits-hold-protest-in-karol-bagh/390144/">http://www.financialexpress.com/india-news/hindu-outfits-hold-protest-in-karol-bagh/390144/</a> Date Accessed: 24/9/2016</p>	<p>राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ</p>
<p><b>गरबा में मुस्लिमों का विरोध</b> गुजरात के भरुच में हिंदू और मुस्लिमों द्वारा आयोजित गरबा कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया।</p>	<p>विहिप, बजरंग दल, शिव</p>

<p>विहिप, बजरंग दल, शिव सेना और हिंदू जागरण मंच ने इस कार्यक्रम का विरोध किया था। संगठनों द्वारा कुत्सित अभियान चलाया जा रहा है कि गरबा में मुस्लिमों के आने से धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं।</p> <p><a href="http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/bharuch-gujarat-garba-event-cancelled-muslims-hindu-protest-3051641/">http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/bharuch-gujarat-garba-event-cancelled-muslims-hindu-protest-3051641/</a> Date Accessed: 27/9/2016</p>	<p>सेना और हिंदू जागरण मंच</p>
<p><b>मुंबई हाउसिंग सोसायटी का सांप्रदायिक प्रस्ताव</b></p> <p>मुंबई हाउसिंग सोसायटी में एक मुस्लिम परिवार को फ्लैट बेचने से मना करने के मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हाउसिंग सोसायटी ने प्रस्ताव पारित कर कांताबेन पटेल को फ्लैट बेचने से मना किया और प्रताड़ित करने की कोशिश की।</p> <p><a href="http://www.ndtv.com/mumbai-news/housing-society-vetos-prospective-muslim-neighbor-9-now-in-jail-1461466">http://www.ndtv.com/mumbai-news/housing-society-vetos-prospective-muslim-neighbor-9-now-in-jail-1461466</a> Date Accessed: 20/9/2016</p>	<p>मुंबई हाउसिंग सोसायटी</p>
<p><b>हरियाणा में बिरयानी को लेकर विवाद</b></p> <p>हरियाणा गौ सेवा आयोग की शिकायत पर मेवात में बिरयानी के नमूनों की जांच की गयी। हिसार लैब में सैंपल पॉजिटिव पाया गया है। गाय को राजनीतिक मुद्दा बनाने से गरीब मुस्लिम दुकानदारों पर इसका असर पड़ा है।</p> <p><a href="http://www.hindustantimes.com/columns/the-mewat-biryani-raids-have-permanently-damaged-livelihoods-of-poor-muslims/story-9iIDje0po0GSf3RNce0qMI.html">http://www.hindustantimes.com/columns/the-mewat-biryani-raids-have-permanently-damaged-livelihoods-of-poor-muslims/story-9iIDje0po0GSf3RNce0qMI.html</a> <a href="http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/beef-ban-haryana-biryani-testing-cow-protection-gau-rakshak-lynching-3019411/">http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/beef-ban-haryana-biryani-testing-cow-protection-gau-rakshak-lynching-3019411/</a> Date Accessed: 29/9/2016</p>	<p>हरियाणा गौ सेवा आयोग</p>
<p><b>उत्तरप्रदेश के कालेज में विहिप का अभियान</b></p> <p>विधानसभा चुनावों के ठीक पहले विहिप उत्तरप्रदेश के इंटरमीडियट स्कूलों और कॉलेजों में मिशन हिंदुइज्म अभियान चलाएगी। संगठन की रणनीति है कि इसके जरिए युवाओं को हिंदुत्व की विचारधारा से जोड़ा जाए। फिलहाल इसे ब्रज क्षेत्र के 18 जिलों में चलाया जाएगा।</p> <p><a href="http://timesofindia.indiatimes.com/city/agra/VHP-to-launch-Hindutava-campaign-in-UP-colleges/articleshow/54019729.cms">http://timesofindia.indiatimes.com/city/agra/VHP-to-launch-Hindutava-campaign-in-UP-colleges/articleshow/54019729.cms</a> Date Accessed: 5/9/2016</p>	<p>विश्व हिंदू परिषद</p>
<p><b>गौ सेवा आयोग ने की गाय पर अलग विश्वविद्यालय की मांग</b></p> <p>गौ सेवा आयोग ने हरियाणा सरकार को गाय पर शोध के लिए अलग से विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव भेजेगा। गौ सेवा आयोग में भाजपा, आरएसएस और हिंदूवादी संगठनों से संबद्ध लोग जुड़े हुए हैं।</p> <p><a href="https://www.scoopwhoop.com/Gau-Seva-Ayog-In-Haryana-Now-Wants-A-Cow-University-To-Study-The-Animal-In-Detail/#.ikn3u0847">https://www.scoopwhoop.com/Gau-Seva-Ayog-In-Haryana-Now-Wants-A-Cow-University-To-Study-The-Animal-In-Detail/#.ikn3u0847</a> Date Accessed: 19/9/2016</p>	<p>गौ सेवा आयोग</p>
<p><b>दाभोलकर ट्रस्ट पर वित्तीय अनियमितता का आरोप</b></p> <p>नरेन्द्र दाभोलकर हत्या कांड में आरोपी सनातन संस्था ने दाभोलकर ट्रस्ट पर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया है। हिंदू जनजागृति समिति, लश्कर-ए-हिंदू, हिंदू एकता आंदोलन के साथ सनातन संस्था ने इसे लेकर प्रेस कांफ्रेंस आयोजित किया। इससे पहले सीबीआई ने सनातन संस्था के वीरेन्द्र तावड़े और समीर गायकवाड़ को हत्या के भूमिका के आरोप में गिरफ्तार किया</p>	<p>सनातन संस्था, हिंदू जनजागृति समिति, लश्कर-ए-हिंदू, हिंदू एकता आंदोलन</p>



<p>था।  <a href="http://indianexpress.com/article/pune/sanatan-sanstha-demands-probe-against-dabholkar-trust-3042981/">http://indianexpress.com/article/pune/sanatan-sanstha-demands-probe-against-dabholkar-trust-3042981/</a>                  Date Accessed: 22/9/2016</p>	
<p><b>जल प्रदूषण से निजात के उपाय का हिंदू संगठनों ने किया विरोध</b>                  पुणे म्युनिसिपल कार्पोरेशन ने गणेश विसर्जन से होने वाले जल प्रदूषण को हल करने के लिए नेशनल केमिकल लेबोरेटरी से सहयोग मांगा था। प्लास्टर आफ पेरिस से निजात पाने के लिए अमोनियम बाईकार्बोनेट के इस्तेमाल को बढ़ाने की पहल का हिंदू जनजागृति समिति और शिवसेना ने विरोध किया है। संगठन ने इसके खिलाफ धरना आयोजित कर इसे धार्मिक भावनाओं के खिलाफ बताया है।  <a href="http://indianexpress.com/article/cities/pune/hindu-janagruti-samiti-opposes-pmc-initiative-to-check-water-pollution-by-ganesh-idols/">http://indianexpress.com/article/cities/pune/hindu-janagruti-samiti-opposes-pmc-initiative-to-check-water-pollution-by-ganesh-idols/</a>                  Date Accessed: 1/9/2016</p>	<p>हिंदू जनजागृति समिति,                  शिवसेना</p>
<p><b>फिल्म में ईसाइयों की हत्या के दृश्य पर हिंदूवादी संगठनों का समर्थन</b>                  हिंदूवादी संगठनों ने हिंदी फिल्म चापेकर ब्रदर्स में धर्मांतरण को लेकर ईसाइयों की हत्या के दृश्य पर सीबीएफसी की आपत्ति का विरोध किया है। सेंसर ने कहा है कि यह प्रमाणिक ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। (नोट: इस पर प्रकाशित खबरों में सेंसर, फिल्म निर्माताओं से जुड़ा हुआ पक्ष बहुत स्पष्ट नहीं है। लेकिन यह स्पष्ट है कि शिवसेना, हिंदू जनजागृति समिति जैसे संगठन सांप्रदायिक अजेंडे के कारण फिल्म में इस दृश्य को रखने का समर्थन कर रहे हैं।)  <a href="http://www.mid-day.com/articles/national-awardee-in-1980-stuck-with-censors-in-2016/17576175">http://www.mid-day.com/articles/national-awardee-in-1980-stuck-with-censors-in-2016/17576175</a>  <a href="https://www.hindujagruti.org/hindi/news/83211.html">https://www.hindujagruti.org/hindi/news/83211.html</a>                  Date Accessed: 13/9/2016</p>	<p>शिवसेना, हिंदू जनजागृति समिति</p>
<p><b>गोडसे की फांसी की जगह पर पूजा की मांग</b>                  अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने अंबाला जेल को पत्र लिखकर मांग की है उन्हें उस जगह की पूजा करने की अनुमति दी जाए जहां गोडसे और नाना आप्टे को फांसी दी गयी थी। संगठन नाथूराम गोडसे का बलिदान दिवस आयोजित करता है।  <a href="http://timesofindia.indiatimes.com/city/meerut/-Mahasabha-members-seek-nod-to-worship-place-where-Godse-was-hanged-in-Ambala-jail/articleshow/54316843.cms">http://timesofindia.indiatimes.com/city/meerut/-Mahasabha-members-seek-nod-to-worship-place-where-Godse-was-hanged-in-Ambala-jail/articleshow/54316843.cms</a>                  Date Accessed: 13/9/2016</p>	<p>अखिल भारतीय हिंदू महासभा</p>
<p><b>लॉ कमीशन में नियुक्ति पर विवाद</b>                  सरकार ने लॉ कमीशन के सदस्य के तौर पर अभय भारद्वाज की नियुक्ति की है। अभय भारद्वाज गुलबर्ग सोसाइटी केस के आरोपियों के वकील रहे हैं। इससे पहले कमीशन में सत्य पाल जैन की नियुक्ति भी विवादित रही है। सत्यपाल जैन अयोध्या मामले में लाल कृष्ण आडवाणी के सलाहकार रहे हैं।  <a href="http://www.hindustantimes.com/india-news/gujarat-riots-case-defence-counsel-among-new-law-commission-members/story-uYUIp0Zv78TxSyRMBkTvrK.html">http://www.hindustantimes.com/india-news/gujarat-riots-case-defence-counsel-among-new-law-commission-members/story-uYUIp0Zv78TxSyRMBkTvrK.html</a>                  Date Accessed: 29/9/2016</p>	<p>लॉ कमीशन ऑव इंडिया</p>
<p><b>हिंदू नारी संसद का आयोजन</b>                  मेरठ में 15000 लोगों को सैन्य प्रशिक्षण देने वाले संगठन हिंदू स्वाभिमान ने गाजियाबाद के डासना मंदिर में हिंदू नारी संसद का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में लव जेहाद और ज्यादा बच्चे पैदा</p>	<p>हिंदू स्वाभिमान</p>

<p>करने और हिंदू महिलाओं को सैन्य प्रशिक्षण देने की मांग की है। राजनी हिंदू स्वाभिमान के कार्यक्रमों में मुस्लिम समुदाय को क्रूर, हिंसक के रूप में चित्रित किया जाता है।  <a href="http://timesofindia.indiatimes.com/city/meerut/Hindu-Swabhiman-outfit-that-trained-army-of-15k-to-now-focus-on-women/articleshow/53951520.cms">http://timesofindia.indiatimes.com/city/meerut/Hindu-Swabhiman-outfit-that-trained-army-of-15k-to-now-focus-on-women/articleshow/53951520.cms</a>  <a href="http://www.patrika.com/news/ghaziabad/hindu-women-parliament-said-now-daughters-received-military-training-1390382/">http://www.patrika.com/news/ghaziabad/hindu-women-parliament-said-now-daughters-received-military-training-1390382/</a>                      Date Accessed: 3/9/2016</p>	
<p><b>लखनऊ में सोशल पोस्ट से माहौल बिगाड़ने की कोशिश</b>                      लखनऊ में शिया धर्म गुरु कल्बे जव्वाद के खिलाफ आपत्तिजनक संदेश के मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इस मामले में फेक आईडी बनाकर अराजक तत्वों ने सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की।  <a href="http://timesofindia.indiatimes.com/city/lucknow/Case-lodged-for-posting-derogatory-remarks-on-FB-against-Shia-cleric/articleshow/54120420.cms">http://timesofindia.indiatimes.com/city/lucknow/Case-lodged-for-posting-derogatory-remarks-on-FB-against-Shia-cleric/articleshow/54120420.cms</a>                      Date Accessed: 7/9/2016</p>	<p>अराजक तत्व</p>
<h3>अतिवादी कथन</h3>	
<p><b>प्रशासनिक कार्यवाई को कहा हिंदू विरोधी</b>                      आरएसएस के मुखपत्र में बिजनौर में हुए दंगे की प्रशासनिक कार्यवाई पर संदेह जताया है। इस घटना को मुजफ्फरनगर से जोड़ते हुए कहा गया है कि उसी तर्ज पर हिंदू युवकों पर फर्जी मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। लेख में दिखाने की कोशिश है कि प्रशासनिक कार्यवाई एकतरफा और हिंदू विरोधी है।  <a href="http://panchjanya.com/Encyc/2016/9/26/UP-Bijnor.aspx">http://panchjanya.com/Encyc/2016/9/26/UP-Bijnor.aspx</a>                      Date Accessed: 26/9/2016</p>	<p>पांचजन्य</p>
<p><b>आरएसएस की पत्रिका में ओणम पर विवाद</b>                      केरल में आरएसएस की पत्रिका केसरी में प्रकाशित एक लेख में ओणम को लेकर विवाद पैदा करने की कोशिश की गयी है। पत्रिका में प्रकाशित लेख में कहा गया है कि ओणम का संबंध विष्णु के अवतार वामन से जुड़ा हुआ है। जबकि इसे महाबली से संबद्ध कर दलित पहचान से जोड़ दिया गया है।  <a href="http://www.hindustantimes.com/india-news/rss-magazine-article-rejects-popular-legend-for-kerala-s-onam-festival/story-I8qiKNTNfAXIWI5E4yhdbL.html">http://www.hindustantimes.com/india-news/rss-magazine-article-rejects-popular-legend-for-kerala-s-onam-festival/story-I8qiKNTNfAXIWI5E4yhdbL.html</a>                      Date Accessed: 11/9/2016</p>	<p>केसरी</p>
<h3>सांप्रदायिक कथन</h3>	
<p><b>सलाफी प्रचारक के खिलाफ हेट स्पीच का मामला</b>                      कासरगोड़ के सलाफी प्रचारक शमशुद्दीन पालाथ के खिलाफ हेट स्पीच का मामला दर्ज किया गया है। शमसुद्दीन अतिवादी सलाफी हैं। उन पर आरोप है कि उनके भाषणों में गैरहिंदुओं के लिए घृणा रहती है। सलाफी प्रचारक को आईपीसी की धारा 153(ए) के तहत गिरफ्तार किया गया है।  <a href="http://www.newindianexpress.com/states/kerala/Salafi-preacher-Shamsudheen-Palath-charged-with-hate-speech-in-Kerala/2016/09/08/article3616360.ece">http://www.newindianexpress.com/states/kerala/Salafi-preacher-Shamsudheen-Palath-charged-with-hate-speech-in-Kerala/2016/09/08/article3616360.ece</a>                      Date Accessed: 8/9/2016</p>	<p>सलाफी प्रचारक शमशुद्दीन पालाथ</p>

## न्यायिक और प्रशासनिक प्रक्रिया

### एमआईएम पार्षद को अग्रिम जमानत

हैदराबाद में मजलिस-ए-इतेहादुल मुस्लिमीन से पार्षद को मेट्रोपोलिटन सेशन ने सांप्रदायिक घटना के मामले में अग्रिम जमानत दे दी। एमआईएम पार्षद और अब कांग्रेस में शामिल हो चुके नेता मोहम्मद गौस पर 2012 में दंगा भड़काने का आरोप लगा था।

<http://timesofindia.indiatimes.com/city/hyderabad/MIM-corporator-granted-anticipatory-bail/articleshow/54040240.cms>

Date Accessed: 7/9/2016

### ऊना मामला: गुजरात हाइकोर्ट ने प्रगति रिपोर्ट मांगा

गुजरात हाइकोर्ट ने राज्य सरकार से ऊना में हुई दलितों की पिटाई के मामले में प्रगति रिपोर्ट के लिए कहा है। अदालत का आदेश एक याचिका के संबंध में आया है जिसमें सीबीआई जांच की मांग की गयी थी।

<http://timesofindia.indiatimes.com/city/ahmedabad/Una-High-Court-demands-progress-report/articleshow/54574943.cms>

Date Accessed: 29/9/2016

### नरोदा पटिया केस: सुप्रीम कोर्ट का छः माह में सुनवाई का आदेश

2002 के नरोदा पटिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात की निचली अदालत को आदेश दिया है कि छः महीने में इससे जुड़ी सुनवाई पूरी करे। अहमदाबाद में एक विशेष अदालत इस केस की सुनवाई कर रही है।

<http://www.deccanchronicle.com/nation/current-affairs/190916/naroda-gam-massacre-sc-orders-gujarat-court-to-complete-trial-within-6-months.html>

Date Accessed: 19/9/2016

### भीलवाड़ा में इंटरनेट पर रोक लगाया

भीलवाड़ा में गणेश पूजा से लौट रहे विहिप कार्यकर्ता की हत्या के बाद के बाद हिंदूवादी संगठनों ने भीलवाड़ा बंद का आयोजन किया। प्रशासन ने अफवाह फैलाने से रोकने के लिए इंटरनेट सर्विस पर रोक लगा दिया। इस हमले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

<http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/Internet-blocked-in-Bhilwara-to-curb-spread-of-rumours/articleshow/54369844.cms>

Date Accessed: 16/9/2016

### होसदुर्ग अदालत: विहिप नेता प्रवीण तोगड़िया की गिरफ्तारी का आदेश

केरल के होसदुर्ग अदालत ने विहिप नेता प्रवीण तोगड़िया की गिरफ्तारी का आदेश जारी किया है। होसदुर्ग पुलिस ने अदालत से कहा था कि 2011 में हिंदू एक्य वेदी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हेट स्पीच के मामले में आरोपी तोगड़िया को गिरफ्तार करने में वह सक्षम नहीं है। अपराध से जुड़े मामलों में सेक्शन 82 के तहत ऐसे आदेश के बाद आरोपी व्यक्ति को अदालत के सामने 30 दिन में प्रस्तुत करना होता है।

<http://www.newindianexpress.com/nation/Case-against-VHPs-working-president-Praveen-Togadia-for-hate-speech/2016/08/31/article3606151.ece>

Date Accessed: 1/9/2016

### बिरयानी जांच के खिलाफ याचिका

पंजाब और हरियाणा की हाइकोर्ट में दाखिल एक याचिका में कहा गया है कि हरियाणा गौ सेवा आयोग के जरिए रोड किनारे के बिरयानी विक्रेताओं को निशाना बना जा रहा है। ऐसी कोशिशों से समुदाय में धुवीकरण किया जा रहा है। याचिका में हरियाणा गौ सेवा आयोग के आदेश को संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 और 25 का स्पष्ट उल्लंघन कहा गया है।

<http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/haryana-plea-in-hc-against-biryani-policing-in-mewat-3033485/>

Date Accessed: 16/9/2016

### मुजफ्फरनगर दंगों में कमजोर जांच

मुजफ्फरनगर दंगों के तीन साल बाद दर्ज किए गए 511 केस में अभी तक एक भी व्यक्ति पर दोष सिद्ध नहीं हुआ है। जिन पांच केस में सुनवाई पूरी की गयी है, उसमें आरोपी 39 लोग जमानत पर रिहा हैं। दंगों के आरोप में गिरफ्तार हुए 1,475 लोगों में करीब 30 आरोपी जेल में हैं, जबकि बाकी को जमानत मिल गयी है।

<http://timesofindia.indiatimes.com/city/lucknow/Muzaffarnagar-riots-No-convictions-accused-out-on-bail/articleshow/54038401.cms>

Date Accessed: 7/9/2016

### गुजरात हाइकोर्ट ने मृतक गवाह के बयान को निरस्त करने का आदेश दिया

2002 के दंगों में गुजरात हाइकोर्ट ने सेशन कोर्ट को आदेश दिया है कि वह मृतक गवाह के बयान को निरस्त करे। जस्टिस एसजी शाह ने खड़िया पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। सरकीवाड इलाके में 2002 के दंगों को लेकर 2013 में इस्लामुद्दीन शेख का बयान दर्ज किया, जबकि गवाह की मौत 2007 में हो चुकी है।

<http://timesofindia.indiatimes.com/city/ahmedabad/Remove-dead-witness-testimony-High-Court-to-court/articleshow/54535322.cms>

Date Accessed: 27/9/2016

### हरी मस्जिद फाइरिंग केस बंद

1993 के हरी मस्जिद फाइरिंग केस पर सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को सेशन कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। सीबीआई की जांच में सब-इंस्पेक्टर निखिल कापसे को क्लीन चिट दी है। इस केस में घायल हुए फारुक मापकर की चुनौती को सेशन कोर्ट ने निरस्त कर दिया। 1993 में नमाज पढ़ने के दौरान हुई फाइरिंग में 9 लोग मारे गए थे

<http://mumbaimirror.indiatimes.com/mumbai/others/Hari-Masjid-case-closed-but-no-closure-for-riot-victim/articleshow/53988062.cms>

Date Accessed: 3/9/2016

## सांप्रदायिकता के आंकड़े

### उत्तरप्रदेश में आगरा में हुई सर्वाधिक घटनाएं

पश्चिमी उत्तरप्रदेश में सांप्रदायिक घटनाएं लगातार होती रही हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार उत्तरप्रदेश के आगरा में 2015 के दौरान 219 मामले दर्ज किए गए। इसके बाद लखनऊ और मेरठ में क्रमशः 113 और 112 मामले दर्ज हुए। देश भर में दर्ज किए 65, 255 घटनाओं में उत्तरप्रदेश में 6,813 केस दर्ज हुए।

<http://timesofindia.indiatimes.com/city/agra/Riots-continue-to-singe-volatile-west-UP/articleshow/53950517.cms>

Date Accessed: 31/7/2016

Connect with RGICS at: [info@rgics.org](mailto:info@rgics.org); [www.rgics.org](http://www.rgics.org)



सूचना: यह केवल निजी प्रसार के लिए है। सभी लेख, खबरें मूल लेखों और खबरों का सार-संक्षेप है और इनके शीर्षकों में कहीं-कहीं बदलाव किया गया है। मूल लेखों और खबरों के विस्तार के लिए साथ में लिंक भी दिए गए हैं।